

किसि ने तुम्हें चोट लगाई? किसि ने आपसे बुरा बर्ताव किया?

क्या आपको छुट्टी नहीं लेने देते? क्या आपको घरवालों और दोस्तों को फोन करने को मना करते हैं? क्या आपके बॉस आपकी फोन की बातें सुनते हैं? क्या आपको अकेले घर से नहीं निकलने देते?

आपकी तबियत खराब होने पर, क्या आपको डाक्टर के पास जाने नहीं देते? क्या किसि ने आपके खिलाफ शरीरिक या मौखिक अत्याचार किया? क्या किसि ने आपको कभी धमकी दी? क्या आपका पासपोर्ट आपके बॉस ने अपने पास रखा है? क्या आपको कोई सेक्षुअल तंग करता है? क्या आपकी रहने की जगह रहने लायक है? क्या आपको काम के पैसे नहीं देते?

अगर आप एक या एक से ज्यादा सवाल का उत्तर 'हाँ' में देते हैं तो कृपया हमें संपर्क कीजिये!

המוקד לפליטים ולמהגרים צ"ד

कृपया डरो मत!

जो लोग यहां बाहर से काम करने के लिये आते हैं, वे लोग अक्सर शिकायत करने से डरते हैं. उन्हें मालुम नहीं कि कुछ मामलों में, उनको सुरक्षा, कानूनी सहायता, सुरक्षित जगह, रिहैबिलिटेशन, वर्क विजा आदि का अधिकार हैं.

यहां एक कहानी का उदाहरण है. एक लड़की भारत से काम करने के लिये आई थी. वह एक इजराएली घर में काम करती थी. उसने दिन में 24 घंटे, हफ़्ते में 7 दिन लगातार काम किया और वह भी बिना छुट्टी लिये. वह लड़की बाथरूम के फ़र्श पे गद्दा बिछा के सोती थी हालांकि घर में कमरे खाली पड़े थे. उसे अकेले घर से जाने नहीं देते थे और उसका पासपोर्ट भी उन्होंने ले लिया था. पास वाली घर में एक और औरत काम करती थी, उस औरत ने लड़की की हालत देखी और कूड़ादन के पास एक मोबाइल फ़ोन और मदद के लिये फ़ोन नम्बर छोड़ा. उस लड़की ने मदद मांगी और वह वहां से बच निकली.

कृपया हमें संपर्क किजीये

Hotline for Refugees and Migrants:

SOS@hotline.org.il / 050-8848250